

ग्रामीण कार्य विभाग

बिहार, पटना

पत्रांक:- RWD/CLAIM/2023-24/211-377(अ०२५)
प्रेषक,

पटना/दिनांक:- 27.01.025

संजय कुमार, नामांकण
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी—सह—सचिव, ब्राडा।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल—मुजफ्फरपुर।

विषय : MMGSY योजनान्तर्गत Construction of road from Hardi Masjid to Fatehpur Siwan tak. में Seigniorage fees दावा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग— कार्य प्रमंडल—मुजफ्फरपुर पश्चिम का पत्रांक-1231 अनु०, दिनांक—05.09.2023

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विषयांकित पथ में Seigniorage fees अंतर राशि रु 1,37,923/- का दावा की जाँच हेतु अभिलेख समर्पित किया गया है जिसके आधार पर विभागीय GST परामर्शी फर्म M/s SKKSS & Co. द्वारा उक्त दावो की जाँच की गई तथा राशि रु 1,37,923/- मात्र की राशि दावे के योग्य पाया गया है।

GST परामर्शी फर्म के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय GST समिति की अनुशंसा एवं परामर्शी के प्रतिवेदन निम्न शर्तों के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है:-

- कार्यपालक अभियंता Seigniorage fees के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित योजनान्तर्गत Seigniorage fees का भुगतान पूर्व में न हुआ हो।
- भुगतान से पूर्व State MIS पर भुगतान की राशि को अपलोड कर दिया गया है।
- जिस संवेदक को भुगतान किया जा रहा है, वह कालीसूची में नहीं है।
- संबंधित योजना में ATR लम्बित नहीं है।
- कार्यपालक अभियंता पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि Seigniorage fees की अनुशंसित राशि का भुगतान संबंधित संवेदक को संबंधित योजना में ही किया जा रहा है।
- एकरारनामा से अधिक राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि का पूरक एकरारनामा कर लिया गया है।

अनु०— यथोक्त।

विश्वासभाजन

24-11-25

अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी—सह—सचिव, ब्राडा

ज्ञापांक— RWD/CLAIM/2023-24/211-377

पटना/दिनांक:- 27.01.025

प्रतिलिपि—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल—मुजफ्फरपुर पश्चिम को सूचनार्थ।

24-11-25

अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी—सह—सचिव, ब्राडा

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

Seigniorage fee Claim के निष्पादन हेतु ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा गठित समिति की दिनांक - २५।।।१२५ को आहूत बैठक की कार्यवाही

विषय :- MMGSY योजनान्तर्गत Construction of Road from Hardi Masjid to Fatehpur Siwan Tak. एकरारनामा संख्या 149/SBD/2019-20 में सिग्नियोरेज शुल्क दावा की रखीकृति के संबंध में।

प्रसंग :- कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम का पत्रांक 1231 अनु० दिनांक 05.09.2023

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम द्वारा विषयांकित पथ में रु० 1,37,923/- की सिग्नियोरेज शुल्क अंतर राशि का दावा जाँच हेतु समर्पित किया गया है। विभागीय पत्रांक 43/2023-761, दिनांक 23.03.2023 के आलोक में विभागीय जी.एस.टी. Consultant M/s SKKSS & Co. द्वारा दावे की जाँच की गई तथा रु० 1,37,923/- मात्र की राशि के दावे के योग्य पाया गया है।

तदालोक में एकरारनामा 149/SBD/2019-20 विषयांकित कार्य Construction of Road from Hardi Masjid to Fatehpur Siwan Tak के लिए दावे की राशि रु० 1,37,923/- रुपये मात्र संवेदक सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान की अनुशंसा की जाती है।



Shreeta Singh
23/10/21

विभागीय GST Consultant ₹०.वित्त प्रबंधक
(Taxation)

Chiranjib Singh - Financial Lawyer
23/10/21
वित्त प्रबंधक

23/10/21
GST नोडल मदाधिकारी

To,

The Additional Chief Executive Officer,
Bihar Rural Road Development Agency
Rural Works Department
Government of Bihar.

12.03.2024

**Re: Submission of Seigniorage fee Impact Report of M/s Singh Construction vide
agreement number 149/SBD/2019-20**

Ref: Our appointment as GST Consultant by Rural Works Department, vide agreement
number BRRDA/01/GST Consultancy dated 24.02.2023 and EE, Muzaffarpur
West, RWD letter no. 1231 dated 05.09.2023

Respected Sir,

We are appointed to recommend payment of Impact arising on account of roll out of
Seigniorage fee by analysing claim of contractors as per Scope of Work.

GST Impact Summary		
Agreement No.	Name of Project	Seigniorage Fees Impact in Rupees
149/SBD/2019-20	Construction of road from Hardi Masjid to Fatehpur Siwan Tak	1,37,923



SKKSS & Co

Tel : +91 9263374200
Email- rwdgst@gmail.com

We are therefore pleased to make our submission of Seigniorage fee Impact Report of M/s Singh Construction for the following project with reference to the Construction of road from Hardi Masjid to Fatehpur Siwan Tak.

With this letter, we would like to draw your attention towards the following facts:-

- 1) The impact being given is from RA Bill 01 to RA Bill 03. Seigniorage fee Impact in later RA bills have to be verified and audited on submission of bill by M/s Singh Construction in future period.

That we have charged fees for entire contract and therefore as and when the new RA bills are submitted, the same should be sent to our office and sent via BRRDA for needful action. That a flat percentage cannot be applied for payment of future claims on RA bills and remaining amount of contract as the material & services components differs on every milestone of payment.

In our capacity as Indirect Consultant to you we therefore request you not to pay any adhoc Seigniorage fee reimbursement in future RA bills submitted as the same may cause loss to public exchequer, if the same is paid without proper analysis and auditing of records. Kindly forward all communication with respect to Seigniorage fee for proper analysis and needful action from our end.

2) That the Seigniorage fee Impact calculation is made on the following premise:

- a) That the above work is a Construction of road from Hardi Masjid to Fatehpur Siwan Tak.
- b) That the Seigniorage fee Impact amount indicated in the table above is derived on the basis of the RA Bills submitted before us. Therefore, in any case no excess payment



can be made over and above the amount mentioned in the letter for completing the project.

- c) That in the estimates prepared, Seigniorage fee was not included in the finished rates of each item of work. However, while making payments of RA bills, seigniorage fee was deducted. Hence the Contractor has submitted the claim for refund of Seigniorage fee.
- d) That the Seigniorage fee claim amount submitted for approval by the Contractor was Rs. 1,37,923 while as per our calculation the Seigniorage fee claim amount shall be Rs. 1,37,923 which result in savings of nil.
- e) That at any later stage if it is brought to our notice that any fact/figures/calculation which was provided to us the basis of which has been our calculation, is misrepresented and which has a material effect on the above Seigniorage fee Claim amount, then the Seigniorage fee claim amount shall be void ab initio.

For any query or clarification, please contact the undersigned at earliest.

Therefore, kindly do the needful in this regard.

For and on behalf of
SKKSS & Co.

Shreeta Singh
Authorized Signatory

